



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 844) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

3 जून 2016

सं० 794—गया जिलान्तर्गत बेलागंज प्रखंड में अवस्थित मोरहर तथा बुढ़ नदी के संगम से लगभग 250 गज की दूरी पर पश्चिम दिशा में तथा ग्राम—मेन के दक्षिण दिशा में भगवान शिव का सहस्र लिंग स्थापित है, जिसे बाबा कोटेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग में समान आकार के 1008 शिवलिंग समाहित हैं, जिसका आज भी प्रत्यक्ष दर्शन किया जाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में वाणासुर की आत्मजा ऊषा ने करवायी थी। ग्राम मेन का प्राचीन नाम यहां स्थापित शिवलिंगों के नाम पर शिवपुर था। यह मंदिर अतिप्राचीन एवं ऐतिहासिक है। मंदिर सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं० 3899 है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना होगा।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्वद कार्यालय को आम सभा दिनांक 20-12-2015 की कार्यवाई की प्रति प्राप्त हुई है। आम सभा में न्यास की व्यवस्था हेतु न्यास समिति गठन हेतु सर्वसम्मति से सदस्यों का चुनाव किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, संजय कुमार, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-81 (ख) सह पठित धारा-8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास बाबा कोटेश्वरनाथ मंदिर, ग्राम+पो0—मेन, थाना—बेलागंज, जिला—गया के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “बाबा कोटेश्वरनाथ मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पो0—मेन, थाना—बेलागंज, जिला—गया” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “बाबा कोटेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पो0—मेन, थाना—बेलागंज, जिला—गया” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. ये न्यास की चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण, बदलैन या लीज किसी के पक्ष में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अगर बगैर अनुमति के किसी प्रकार का हस्तांतरण, बदलैन या लीज किया जाता है तो वह अवैध एवं वातिल होगा।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 - (1) श्री झलक देव सिंह, ग्राम- मेन, जिला- गया — अध्यक्ष
 - (2) श्री श्री किशोरी मोहन शर्मा, ग्राम- मेन, जिला- गया — उपाध्यक्ष
 - (3) श्री योगेन्द्र शर्मा, ग्राम- मेन, जिला- गया — सचिव
 - (4) श्री चन्द्रदेव दास, दीवरी ग्राम, जिला- गया — संगठन सचिव
 - (5) श्री रामध्यान शर्मा, ग्राम- मेन, जिला- गया — कोषाध्यक्ष
 - (6) श्री केशरी त्रिपाठी, ग्राम- मेन, जिला- गया — सदस्य
 - (7) श्री सुभाष शर्मा, ग्राम- मेन, जिला- गया — सदस्य
 - (8) श्री श्री हरदेव शर्मा ग्राम- मेन, जिला- गया — सदस्य
 - (9) श्री मुकेश कुमार 'अधिवक्ता' व्यवहार न्यायालय, गया — सदस्य
13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 844-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>